



Department
of Health

न्यूयॉर्क राज्य में स्वास्थ्य सुधार की एक योजना: रोकथाम एजेंडा



हम कितने स्वस्थ हैं? हमारे स्वास्थ्य में कैसे सुधार किया जा सकता है?

आप इन प्रश्नों के उत्तर 2025-2030 के रोकथाम एजेंडा (Prevention Agenda) में पा सकते हैं। यह न्यूयॉर्क राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने के लिए छह साल की एक योजना है। इसे न्यूयॉर्क राज्य स्वास्थ्य विभाग (New York State Department of Health) द्वारा बनाया गया था और इसे न्यूयॉर्क राज्य स्वास्थ्य सुधार योजना (New York State's Health Improvement Plan, SHIP) भी कहा जाता है। देखें: health.ny.gov/PreventionAgenda



▲ रोकथाम
एजेंडा के लिए
स्कैन करें

रोकथाम एजेंडा निम्नलिखित के लिए समर्पित है:

- न्यूयॉर्क राज्य के लोगों को अपने उच्चतम स्वास्थ्य स्तर तक पहुँचने का अवसर देना
- रोकथाम: बीमारी और नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों, या नतीजों को शुरू होने से पहले ही रोकना
- असमानताओं को कम करना: अर्थात्, पर्यावरण की उन स्थितियों के बावजूद जो उनके स्वास्थ्य, कार्यप्रणाली और जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव स्वस्थ रहने का निष्पक्ष और न्यायसंगत अवसर देना। उदाहरण के लिए, टहलने के लिए असुरक्षित स्थान या पौष्टिक भोजन तक पहुँच की कमी



एक नजर भीतर

रोकथाम एजेंडा को देखें तो आप पाएंगे कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पारंपरिक कारकों से परे जाकर हमारे दैनिक जीवन के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तत्वों, उदाहरण के लिए हम कहाँ रहते हैं, को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। रोकथाम एजेंडा स्वास्थ्य स्थितियों, व्यवहारों और प्रणालीगत समस्याओं (प्रणाली के काम करने के तरीके से उत्पन्न समस्याएं) को संबोधित करने के लिए 24 मुख्य प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रदान करता है। इनमें गरीबी, शिक्षा, आवास और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच शामिल हैं।

रोकथाम एजेंडा कैसे काम करता है?

रोकथाम एजेंडा राज्य स्वास्थ्य विभाग और पूरे राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों के बीच एक साझेदारी है। विभाग स्थानीय स्वास्थ्य विभागों, अस्पतालों, समुदाय-आधारित संगठनों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, पैरोकारों, शिक्षाविदों, अन्य राज्य एजेंसियों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम करता है। ये समूह प्रत्येक समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रचनात्मक और विचारशील तरीकों से संसाधनों का उपयोग करते हुए, अपने दैनिक कार्य में रोकथाम एजेंडा को लागू करते हैं।



इसे कैसे तैयार किया गया था?

हमें सबसे पहले न्यूयॉर्क राज्य में स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति और प्रवृत्तियों एवं प्रमुख जन स्वास्थ्य मुद्दों को जानने की आवश्यकता थी। हमें यह भी विचार करने की आवश्यकता थी कि कार्यों और निधियों का विभाजन कैसे किया जाए। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमने राज्य का स्वास्थ्य मूल्यांकन (State Health Assessment, SHA), या समीक्षा की। इसने रोकथाम एजेंडा को विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य किया।



रोकथाम एजेंडा के बारे में जानें

अधिक जानने के लिए रोकथाम एजेंडा वेबसाइट देखें।


देखें: health.ny.gov/PreventionAgenda



रोकथाम का वास्तविक कार्य होता देखें

रोकथाम एजेंडा डैशबोर्ड (Prevention Agenda Dashboard) देखकर उनकी प्रगति को ट्रैक करें।

देखें: [health.ny.gov/PreventionAgenda Dashboard](https://health.ny.gov/PreventionAgendaDashboard)



कैसे शामिल हों

हम नए साझेदारों का स्वागत करते हैं। अधिक जानकारी के लिए Partnerships and Collaboration (साझेदारी और सहयोग) टैब देखें।

देखें: health.ny.gov/PreventionAgenda



Department
of Health